

मरीजों के लिए निर्देश

मल संग्रह के लिए निर्देश


आपको निम्नलिखित में से एक या अधिक कंटेनर प्रदान किए गए हैं:

- ट्रांसपोर्ट मीडियम के साथ स्टूल कल्चर - कैरी ब्लेयर (गुलाबी तरल)
- ट्रांसपोर्ट मीडियम के साथ ओवा और पैरासाइट - SAF फिक्सेटिव (साफ़ तरल)
- साफ वायल (कोई तरल नहीं)

प्रदान किए गए सभी कंटेनरों को भरें। तरल को न फेंकें।
चेतावनी: तरल विषैला होता है। निगलें नहीं।



1 यदि जरूरत हो तो टॉयलेट में पेशाब करें।



2 प्लास्टिक रैप

टॉयलेट सीट को उठाएं। कमोड के ऊपर प्लास्टिक रैप (जैसे सरन रैप™) की शीट बिछाएं, बीच में थोड़ी सी अंदर की ओर लटकी हुई। टॉयलेट सीट को नीचे रखें। प्लास्टिक रैप पर स्टूल पास करें।




3 या फिर, एक साफ बाउल या सटरलाईज किया हुआ बेडपैन का उपयोग करें। मूत्र या पानी को मल के नमूने को छूने न दें।



4 कैप से जुड़े चम्मच का उपयोग करके, मल के खूनी या चिपचिपे/सफेद (श्लेष्म) क्षेत्रों (यदि मौजूद हो) को कंटेनर में डालें। कंटेनर(रों) को अधिक न भरें।

नोट: मल को पास करने के 30 मिनट के भीतर संग्रह कंटेनर(रों) में रखें।



5 तरल वाले कंटेनर:

तरल के "फिल लाइन" पर पहुँचने तक, 2-3 चम्मच मल डालें। कैप(कैप्) को ठीक से कस लें और मिलाने के लिए हिलाएं।

कंटेनर जो साफ और खाली हो:

"फिल लाइन" तक स्टूल डालें। कैप को ठीक से कस दें।



6 साबुन और पानी से हाथ धोएं।

प्रत्येक कंटेनर पर नाम, जन्म तिथि या स्वास्थ्य कार्ड संख्या, और संग्रह की तिथि और समय लिखें।

कंटेनर(रों) को प्लास्टिक बैग(बैगों) में रखें और सील करें।



7 संग्रह के 24 घंटे के भीतर कंटेनर(रों) को लैबोरेट्री में वापस लाएं। देरी से टेस्ट के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। जब तक नमूनों को लैबोरेट्री में नहीं लाया जा सकता, तब तक फ्रिज में स्टोर करें।